

Mahindra FINANCE

पंजीकृत कार्यालय: गेटवे बिल्डिंग, अगोले बंदर, मुंबई- 400 001.
कॉर्पोरेट कार्यालय: बी विंग, तीसरी मंजिल, अगस्ता कॉर्पोरेट पार्क, पीएमएल अगिटी बिल्डिंग, कमाजी नगरान, कुर्ला पश्चिम मुंबई- 400 070.

सर्फेसी अधिनियम, 2002 के धारा 13 (2) के तहत मांग सूचना

उधारकर्ता/ सह-उधारकर्ता / गारंटर/ बंधककर्ता का नाम	ऋण खाता संख्या और ऋण राशि	लागू की जाने वाली सूचना का विवरण	एनपीए की तिथि और मांग नोटिस की तिथि	रुपये में देय राशि... /- के अनुसार
1. हरेंद्र बाबू ट्रेडिंग कंपनी, प्रोप. हरेंद्र बाबू (उधारकर्ता) 2. हरेंद्र बाबू पुत्र देवी सिंह (सह-उधारकर्ता) 3. कुसुम कुमारी पत्नी हरेंद्र बाबू (सह-उधारकर्ता 2)	संदर्भ संख्या वाला स्वीकृति पत्र 17092701000000017 दिनांक: 23.10.2017 ऋण संख्या/ अनुबंध संख्या ISBL0011707494 ऋण राशि रु. 10,00,000/- (केवल दस लाख रुपये)	बंधक अचल संपत्ति का विवरण: मय संख्या- 1 – फ्रीहोस्ट भूमि का वह पुरा टुकड़ा जो मधुरा एन.ए. रसीद संख्या 2123, आवासीय प्लॉट संख्या 05 और 14, 400 वर्ग गज यानी 334.44 वर्ग मीटर शामिल है, जो खसरा संख्या 14 और 16, औरंगाबाद बाई, राहुल रिहायर कॉलोनी, मौजा रोसू, सलेमपुर, फरह, मधुरा में स्थित है। निम्नलिखित सीमाएं: पूर्व दिशा में या उससे आगेसू प्लॉट संख्या 6 और 13, पश्चिम दिशा में या उससे आगे: प्लॉट संख्या 4 और 15, उत्तर दिशा में या उससे आगे: 20 चौड़ा रास्ता, दक्षिण दिशा में या उससे आगे: 20 चौड़ा रास्ता	एनपीए की तिथि: 08.02.2019 मांग सूचना तिथि: 29.07.2025	रु. 21,33,725.79 /- (रुपये ईकीस लाख तीसरी हजार सात सौ चवीस और नौ पैसे मात्र) 28.07.2025 तक

अतः कोलम संख्या 1 में उल्लिखित उधारकर्ता/ सह-उधारकर्ता/ गारंटर और बंधककर्ता को नोटिस दिया जाता है, जिसमें उससे कोलम संख्या 5 में दर्शाई गई कुल राशि का भुगतान दस नोटिस के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर सभी संबंधित उधारकर्ता/ सह-उधारकर्ता के विवेक करने का आदेशन किया जाता है, क्योंकि उस राशि कोलम संख्या 5 में दर्शाई गई तिथि को संबंधित ऋण खाते के संबंध में देय पाई जाती है। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि भविष्य के ब्याज और अन्य राशियों सहित कुल राशि, जो भुगतान की तिथि तक देय हो सकती है, का भुगतान नहीं किया जाता है, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड कोलम संख्या 3 में वर्णित संपत्तियों पर सुरक्षा हित लागू करने के लिए उचित कार्रवाई करने के लिए अधिकारी होगी। कृपया ध्यान दें कि यह प्रकाशन ऐसे अधिकारों और उपायों के प्रति पूर्वाहद के बिना किया गया है जो कानून के तहत उस विनियम परिसंपत्तियों के उधारकर्ता/ सह-उधारकर्ता/ गारंटर/ बंधककर्ताओं के खिलाफ महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को उपलब्ध है, आसरे यह भी अनुरोध है कि उस अधिनियम की धारा 13(1) के अनुसार, आपको सुरक्षित ऋणदाता की पूर्व सहमति के बिना उपरोक्त सूचना का निपटान या उससे निपटने या सुरक्षित परिसंपत्ति की विक्री, पड़े या अन्यथा हस्तांतरण करने से रोकना /नगिध किया गया है।

दिनांक 03.08.2025
रजद नगर
रजद अवेन

हरण/- अधिकृत अधिकारी
महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड

कॉर्पोरेट कार्यालय : 487/63, प्रधान नल, मेगनाल मार्केट, पीएमडी, नई दिल्ली-110087

सीआईएन : L671120L1992PLC048983

30 जुन, 2025 को समाप्त तिमाही हेतु स्टैंडपअलेन तथा समीकृत अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश (रु. लाख में)

क्र. सं.	विवरण	स्टैंडअलेन		समीकृत		स्टैंडअलेन		समीकृत	
		30.06.2025 (अलेखापरीक्षित)	30.06.2024 (अलेखापरीक्षित)	31.03.2025 (लेखापरीक्षित)	30.06.2025 (अलेखापरीक्षित)	30.06.2024 (अलेखापरीक्षित)	31.03.2025 (लेखापरीक्षित)	31.03.2025 (लेखापरीक्षित)	31.03.2025 (लेखापरीक्षित)
1	प्रचालनों से कुल आय (निवल)	1,129.08	1,054.76	1,269.22	1,901.15	1,038.02	1,717.53	5,032.86	6,724.73
2	अवधि हेतु निवल लाभ (कर, अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	60.51	82.47	71.71	96.86	33.42	81.12	208.09	202.85
3	कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाभ (अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात)	60.51	82.47	71.71	96.86	33.42	81.12	208.09	202.85
4	कर पश्चात अवधि हेतु निवल लाभ (अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात)	60.51	82.47	71.71	96.86	33.42	16.45	144.12	138.18
5	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु लाभ (कर पश्चात) तथा अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) सहित]	60.51	82.47	71.71	96.86	33.42	16.45	14.12	138.18
6	इक्विटी सेयर पूंजी	5,339.01	5,339.01	5,339.01	5,339.01	5,339.01	5,339.01	5,339.01	5,339.01
7	आय प्रति शेयर (रु. 1/- प्रत्येक) (समत प्रचालनों हेतु)								
	1. वैशिक (निरपेक्ष आंकड़े)	0.0110	0.0200	0.0130	0.0090	0.0070	0.0020	0.0270	0.0240
	2. झारफ्टेड	0.0110	0.0200	0.0130	0.0090	0.0070	0.0020	0.0270	0.0240

नोट :

- वित्तीय परिणाम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 में निर्दिष्ट संशोधित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत अधिसूचित लागू भारतीय लेखा मानकों (इंड एस) की मान्यता और माग सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए हैं।
- पिछली अवधि के आंकड़ों की वर्तमान अवधि के वर्गीकरण/प्रकटीकरण के अनुरूप, जहां भी आवश्यक हो, पुनर्समूहित/पुनर्वर्गीकृत किया गया है।
- इंपीएस की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 में निर्दिष्ट संशोधित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा अधिसूचित इंड एस 33 के अनुसार की गई है।
- उपरोक्त वित्तीय परिणामों की समीक्षा और अनुशंसा लेखा परीक्षा समिति द्वारा की गई और 2 अगस्त, 2025 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया।



कृते ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड

ह./-

मोहन जगदीश अग्रवाल

प्रबंध निदेशक

डीआईएन : 07627568

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड 501, सार्वजनिक ऑर्डर, जसोला जगजपद केन्द्र, नई दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, ई-110025 तथा

शाखा कार्यालय : शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, मेरठ, उत्तर प्रदेश

पारिशिष्ट-IV-ए [विवरण 8(6) का प्रावधान देखें]

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साक्ष्य पटित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिवित्तिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों के विक्रयार्थ खुली नीलामी विक्रय सूचना। एतद्वहारा जनसाधारण को तथा विशेष रूप में उधारकर्ता(ओं) एवं गारंटर(रें) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत ऋणदाता के पास बंधकभूत/प्रभारित निम्न विवरणित अचल संपत्ति, जिसका रचनात्मक अधिग्रहण शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी, प्रतिभूत ऋणदाता द्वारा कर लिया गया है, उसका विक्रय 27 अगस्त 2025 को **“जैसी है जहाँ है”, “जैसी है जो हैं” तथा “वहाँ जो कुछ भी है”** आधार पर किया जायेगा। सह विक्रय, **1. मैसर्स ऋतु एंटरप्राइजेज (उधारकर्ता (स्वामिनी) : श्रीमती ऋतु सक्सेना पत्नी संजीव सक्सेना) निवासी–** सी 22 तेजपाल सिंह एक्लेव, होटल मुकुट महल के पास, दिल्ली रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश 250002, **2. श्रीमती ऋतु सक्सेना पत्नी संजीव सक्सेना (स्वामिनी/ बंधककर्ता), निवासी–** सी 22 तेजपाल सिंह एक्लेव, होटल मुकुट महल के पास, दिल्ली रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश 250002, **3. श्री संजीव सक्सेना (स्वामिनी/ बंधककर्ता), निवासी–** सी 22 तेजपाल सिंह एक्लेव, होटल मुकुट महल के पास, दिल्ली रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश 250002, **4. श्री अमन कोशिक पुत्र श्री धर्मेन्द्र शर्मा (गारंटर/ बंधककर्ता), निवासी–** सी 22 तेजपाल सिंह एक्लेव, होटल मुकुट महल के पास, दिल्ली रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश 250003 की ओर से शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड प्रतिभूत ऋणदाता को दैय-मुहाना 28/11/2024 के अनुसार **रु. 6,00,000/- (रुपये छह लाख मात्र)** की एक राशि तथा उक्तवधि के पश्चात राशि पर नियत ब्याज व शुल्कों की वसूली करने हेतु किया जायेगा। आश्वित मूल्य रु. **30,07,640/- (रुपये तीस लाख सात हजार छह सौ चालीस मात्र)** होगा तथा धरोहर राशि जमा, बोली राशि की 10 प्रतिशत अर्थात् रु. **3,00,764/- (रुपये तीन लाख सात सौ बीस मात्र)** होगी। बाद की तिथि 26-08-2025 को सावं 5 बजे तक अथवा इससे से पूर्व बैंक में जमा की जानी है, जिसके विवरण यहाँ इसमें नीचे दिये गये हैं :-

उधारकर्ता(ओं) / गारंटर(रें) के नाम	माँग सूचना तिथि तथा माँग सूचना के अनुसार बकाया राशि	अचल संपत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य	घरोहूरा राशि जमा (घराज)
1. मैसर्स ऋतु एंटरप्राइजेज (उधारकर्ता (स्वामिनी) : श्रीमती ऋतु सक्सेना पत्नी संजीव सक्सेना) निवासी– सी 22 तेजपाल सिंह एक्लेव, होटल मुकुट महल के पास, दिल्ली रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश 250002, 2. श्रीमती ऋतु सक्सेना पत्नी संजीव सक्सेना (स्वामिनी/ बंधककर्ता), निवासी– सी 22 तेजपाल सिंह एक्लेव, होटल मुकुट महल के पास, दिल्ली रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश 250002, 3. श्री संजीव सक्सेना पुत्र श्री महेंद्र सिंह सक्सेना (गारंटर/ बंधककर्ता), निवासी– सी 22 तेजपाल सिंह एक्लेव, होटल मुकुट महल के पास, दिल्ली रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश 250002, 4. श्री अमन कोशिक पुत्र श्री धर्मेन्द्र शर्मा (गारंटर/ बंधककर्ता), निवासी– 299, ए सेक्टर 4, पंचवटी एक्लेव, शताब्दी नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश 250003	28–11–2024 रु. 6,00,000 /- (रुपये छह लाख मात्र)	अचल संपत्ति के समस्त भाग तथा अंश –: जिसका पता है- आवासीय संपत्ति, जिसका क्षेत्रफल 11.84 वर्ग मीटर (यू तल) और 62.71 वर्ग मीटर (प्रथम तल, तलाक़िब के बिना), कुल क्षेत्रफल 74.55 वर्ग मीटर है, जो प्लॉट संख्या 06, प्लॉट संख्या सी 22, खसरा संख्या 2068 और 2074, जिला एक्लेव फ़ोलेरी, तहसील और जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश में स्थित, श्रीमती ऋतु सक्सेना पत्नी संजीव सक्सेना तथा श्री संजीव सक्सेना पुत्र श्री महेंद्र सिंह सक्सेना के नाम पर है।	रु. 30,07,640 /- (रुपये तीस लाख सात हजार छह सौ चालीस मात्र)	आरक्षित मूल्य का 10% अर्थात् रु. 3,00,764 /- (रुपये तीन लाख सात सौ बीस मात्र)

अवल संपत्तियों के विरीक्षण की तिथि : 25 अगस्त 2025 को, 11.00 बजे – 15.00 बजे

बोली छोड़ने की नीलामी तिथि एवं समय : 27 अगस्त 2025 को, 10.00 से 12.00 बजे

प्रस्तावों / धराज को जमा करने की अंतिम तिथि : 26 अगस्त 2025 को 5.00 बजे तक

विक्रय के विस्तृत नियमों तथा शर्तों के लिये कृपया शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक, प्रतिभूत ऋणदाता की वेबसाइट https://shivalikbank.com/auction_of_bank_properties.php में उपलब्ध कराने गये लिंक का संर्भन्ध ग्रहण करें।

विक्रय के महत्वपूर्ण विवरण तथा शर्तें :-

- संपत्ति का विक्रय **“जैसी है जहाँ है, वहाँ जो कुछ भी है तथा बिना संसंधानगत वसूली”** के आधार पर किया जा रहा है क्योंकि ऐसा विक्रय किसी भी आश्वासन एवं बलिपूर्ति के है।
- संपत्ति /प्रस्तावों का निरीक्षण बैंक में प्राधिकृत अधिकारी के साक्ष्य ऊपर दी गई तिथि एवं समय पर किया जा सकता है।
- विक्रय के समस्त सामान्य नियमों तथा शर्तों से समाविष्ट बोली प्रेषण/प्रत्यार्ष इस्तेमाल के बाद वगैरह बैंक के शाखा कार्यालय में किसी भी कार्यदिस पर कार्यालय समय के दौरान प्राधिकृत अधिकारी से प्राप्त किये जा सकते हैं। इच्छुक बोलीदाताओं को निर्धारित बोली प्रत्य पर अपनी मोहरबंद बोलीयां बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के पास भेजनी होगी।
- मोहरबंद लिफाफे में जमा की जानेवाली बोली में, नीलामी संपत्ति हेतु बोली का उत्प्रेक्ष्य किया गया हो तथा बोली, धराज (बोली राशि की 10 प्रतिशत के रूप में) के साथ **“शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड”** के जमा में आहरित एवं मेरठ /नोएडा में भुगतान हिमांड ड्राफ्ट द्वारा संलग्न कर 26 अगस्त 2025 को 5.00 बजे तक अथवा इस तिथि से पूर्व बैंक के ऊपर वर्णित शाखा कार्यालय में जमा करनी होगी। बोलीयां जो भरी नहीं गई होंगी अथवा अंतिम तिथि एवं समय के उपरान्त प्राप्त की गई बोलीयां अथवा भागी राशि तथा उन्हें बदतुसार निरस्त कर दिया जायेगा। धराज पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। बोलीदाता द्वारा एक बार बोली जमा कर दिने जाने पर उसे वापस नहीं दिया जा सकता।
- मोहरबंद बोलीयां 27 अगस्त 2025 को 10.00 बजे – 12.00 बजे बैंक के उक्त वर्णित शाखा कार्यालय में उस समय उपस्थित रहनेवाले बोलीदाताओं की उपस्थिति में खोली जानी तथा उसके पश्चात योग्य बोलीदाताओं को प्राधिकृत अधिकारी के विवेक पर, प्रस्तावगत मूल्य बढ़ाने के लिए परस्परिक मूल्य बढ़ाने में भागीदारी करने का एक अवसर प्रदान किया जा सकता है।
- जमा किया जानेवाला बोली मूल्य, आरक्षित मूल्य से अधिक होगा तथा बोलीदाता को अग्रे रु. 50,000/- के मुकाम में अपने प्रस्तावों को बढ़ाना होगा। करण को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेचा जाएगा।
- समस्त बोलीदाता से अपेक्षा की जाती है कि वह विक्रय मूल्य की 25 प्रतिशत रकम (घराज सहित) का जमा भुगतान तत्काल अधिकतम अगले कार्यदिस तक **शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड** के जमा में आहरित मेरठ / नोएडा में भुगतान हिमांड ड्राफ्ट द्वारा करें तथा विक्रय मूल्य की शेष राशि का भुगतान समस्त बोलीदाता को, बैंक द्वारा विक्रय की अनुपेक्षित की तिथि से 15 दिनों के अंदर, करना होगा। इच्छुक बोलीदाताओं द्वारा भुगतान की गई धराज और विक्रय मूल्य पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। यदि समस्त बोलीदाता विक्रय के नियमों का पालन नहीं करता है अथवा कोई धूर्त करता है, तो धराज की जमा अथवा इसका 25 प्रतिशत, जैसा भी मामला हो, बैंक द्वारा जब्त कर दिया जायेगा।
- बैंक जो है वह प्रस्तावित सम्पत्ति के सन्दर्भ में, किसी प्राधिकरण से अथवा लागूस्त किसी अन्य विधि के अंतर्गत, किसी अनुमति/पञ्चकोषी अथवा किसी अन्य देयराशि अर्थात् बकाया जमा/विगत देयराशि, सामयिक कर, नगरपालिका/पंचायत कर या अन्य प्रभार, यदि कोई, की अधिप्राप्ति को कोई उत्तरदायित्व नहीं लेता।
- समस्त बोलीदाता जो है वो किसी प्राधिकरण किसी बकाया देयराशियों, यदि कोई/नगर निगम अथवा किसी अन्य प्राधिकरण/एजेंसी को भुनेये कर/सुविटिटी बिल तथा **“विक्रय प्रमाणपत्र”** के पंजीकरण हेतु स्टॉप शुल्क/पंजीकरण शुल्क इत्यादि भुगतानयोग्य शुल्कों सहित समस्त व्ययों के भुगतान वहन करेगा।
- प्राधिकृत अधिकारी के पास बिना कोई कारण बताए किसी समस्त प्रस्तावों/बोलीयां पर स्वीकार या स्वीकारण करने अथवा विक्रय को स्थगित/निरस्त करने या किसी किसी पूर्व सूचना के बिना ही विक्रय के किसी नियम को संशोधित करने का पूर्णाधिकार तथा विवेकाधिकार सुरक्षित है।
- एक बार बोलीयां को लगाने के बाद उन्हें निरस्त अथवा वापस नहीं किया जा सकेगा।
- अपने सर्वोत्तम ज्ञान एवं जानकारी के अनुसार बैंक, बैंक को छोड़कर, विक्रय की जानेवाली सम्पत्ति पर किसी मारभरता के बारे में अवगत नहीं है। इच्छुक पक्षकारों को अपनी संपुष्टि के अनुसार सम्पत्ति पर अपना स्वयं का आकलन कर लेना चाहिए। बैंक किसी भी प्रकार से उपर्युक्त सम्पत्ति की उपयुक्तता/हकदारी के संबंध में गारंटी नहीं देता अथवा कोई प्रतिश्रुति नहीं देता।
- अवसर संपत्ति का विक्रय सर्वोच्च बोलीदाता को किया जायेगा। हालांकि आगेसहकारकर्ता के पास, यदि वे अनिवार्य समझते हैं, परस्पर बोलीदान की अनुमति प्रदान करने का पूर्ण विवेकाधिकार सुरक्षित है।
- बैंक, बैंक की जानकारी से बाहर की संपत्ति पर निर्धारित किसी देयता के लिए उत्तरदायी नहीं है।
- उधारकर्ता(ओं) / बंधककर्ता(ओं) / गारंटर(रें) को एतद्वहारा प्रतिभूतएलि अधिनियम के नियम 9(1) के साथ पटित नियम 8(6) के अंतर्गत 15 दिवसीय संबंधित सूचना दी जाती है कि वे समाचारकर्ता के क्रमशः हिंदी एवं अंग्रेजी संस्करण में प्रकाशित सूचना की तिथि से 15 दिवसों के अंदर अद्वयत ब्याज एवं व्ययों के साथ ऊपर अंकितानुसार बकाया देयराशियों व अपनी देयताओं का पूर्ण भुगतान करें। समाचारकर्ता में विक्रय रहने की स्थिति में विक्रय के लिये कोई अंतर होता होता है तो ऐसी स्थिति में अंग्रेजी समाचार-पत्र देवी भाषा के समाचार-पत्र का अधिकतम करण तथा इसे ही अंतिम प्रति के रूप में माना-विचार जाएगा, इस प्रकार प्रमाणन अपर्यवदा दूर होगी। यदि उधारकर्ता/ गारंटर / बंधककर्ता, बैंक को देय राशि का विक्रय किसी की तिथि से पूर्व पूर्ण भुगतान कर देते हैं तो नीलामी को रद्द किया जायेगा। हालांकि ऐसी स्थितियों में, सूचना में बकाया राशि पर ऋण प्रलेखासुधार, राशि के वसूल होने तक देय एवं भुगतानयोग्य माली, अकस्मिक व्यय, लागत, इत्यादि लागू अनुसार प्रभारित होंगे।
- प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय अंतिम, ग्राहककारी एवं प्रभुताती है। बोली जमा कर चुके सभी बोलीदाताओं के बारे में यह माना जायेगा कि उन्होंने नीलामी विक्रय के नियमों एवं शर्तों को पढ़ व समझ लिया है तथा वे उन पर बाध्यकारी हैं।
- गिणतियों, सहायता, प्रक्रिया एवं बोलीदान के लिये प्रस्तावित बोलीदाताओं की जानकारी, संपर्क नं. 9045002318 से संपर्क कर सकते हैं।

- कृपया ध्यान दें कि प्रतिभूत ऋणदाता/ गारंटर(रें) को उधारकर्ताओं/सह-उधारकर्ताओं को उनके पत्तों पर जाक द्वारा विक्रय सूचना निर्गत करने जा रहे हैं। यदि यह सूचना किसी भी भाषा द्वारा प्राप्त नहीं की जाती है, तो विक्रय सूचना के इस प्रकाशन को सूचना-प्रतिष्ठ के वैकल्पिक माध्यम के रूप में माना जा सकता है।
- उधारकर्ता/सह-उधारकर्ताओं/गारंटर(रें)/बंधककर्ताओं को भी एतद्वहारा सूचित किया जाता है कि उन्हें इस प्रकाशन के 15 दिनों के अंदर पूर्व अनुमति के साथ, उपर्युक्त परिसरों से अंदर/ बाहर की अधिष्ठा में पड़े अपने परसंग सामानों, यदि कोई हो, की सुपुर्दी अस्थ्य लेनी होगी। ऐसा न करने पर बैंक का उन सामानों के संबंध में कोई उत्तरदायित्व /जवाबदारी नहीं होगी और वह उधारकर्ता/ सह-उधारकर्ताओं/ गारंटर(रें)/बंधककर्ताओं के जोड़ियम पर उनका नितालग करेगा और इनके विक्रय से होनेवाली आय को बकाया राशि में समायाजित करेगा।
- यदि किसी भी कारण, बाढ़ जो कुछ भी हो, से नीलामी विफल हो जाती है तो कंपनी, सरर्क्षांसि अधिनियम 2002 के अंतर्गत अधिविधित प्रावधानों के अनुसार निजी सधि के माध्यम से उपरोक्त बंधककर्ता संपत्तियों को बेचने के लिए सूचित होगी।

दिनांक : 31-07-2025, स्थान : नोएडा

प्राधिकृत अधिकारी, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

केंद्र सरकार के कंपनी रजिस्ट्रार के समक्ष, चतुर्थ तल,

आईएफसीआई टावर, 61, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली 110019

सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13 की उपधारा (3) और सीमित देयता भागीदारी नियम, 2009 के नियम 17 के मामले में। सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13 (3) और मैसर्स शाही परिवार एपीफ़ूड्स एलएलपी [एलएलपी पहचान संख्या एएडी-1202, जिसका पंजीकृत कार्यालय कार्यालय संख्या 4, प्लॉट संख्या 02, कमल वेयरहाउस, बालाजी धाम के पीछे, हनुमानगढ़ रोड, श्रीगंगानगर, राजस्थान- 335001 में है। के मामले में। याचिकाकर्ता: तद्वहारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि एलएलपी धारा 13 के तहत कंपनी रजिस्ट्रार, दिल्ली को एक याचिका प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखती है। सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा (3) के तहत, 25/07/2025 को आयोजित आम बैठक में अपने पंजीकृत कार्यालय को "राजस्थान" राज्य से "दिल्ली" राज्य में बदलने की अनुमति मांगते हुए एक आवेदन प्रस्तुत किया है। कोई भी व्यक्ति, जिसका हित एलएलपी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, वह अपनी आपत्तियों को एक हलफनामे द्वारा समर्थित कंपनी रजिस्ट्रार, दिल्ली को इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 21 (इक्कीस) दिनों के भीतर, एक प्रति याचिकाकर्ता एलएलपी को उसके पंजीकृत कार्यालय, ऊपर उल्लिखित पते पर, सौंप सकता है या पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है। मैसर्स शाही परिवार एपीफ़ूड्स एलएलपी की ओर से।

[नामित भागीदार]

दिनांक: 01/08/2025
स्थान: दिल्ली

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

UZZJIVAN SMAL FAINENES बैंक

पंजीकृत कार्यालय: ग्रेप गार्डन, नंबर 27 तीसरा 'ए' क्रॉस, 18वां मेन, 6वां ब्लॉक, कोमपला, बेंगलुरु, कर्नाटक -560095
क्षेत्रीय कार्यालय : जीएटीडी बिल्डिंग प्लॉट नंबर डी-7, सेक्टर-3 नोएडा (उ.प्र.)-201301
शाखा कोटा:- शाखा कोटा:- 6, शालवाड़ रोड, छवनी चौगहे के पास, गुगनापुर, कोटा - 324007
शाखा किशनगढ़:- प्लॉट नंबर 2, अजमेर रोड, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, पुरोहित ओटी सर्विस, मदनगंज, मदनगंज, किशनगढ़ - 305207
संपर्क व्यक्ति: 1. चैन सिंह गोयल:- 9950437507; 2. धीरज नीमावत:- 9602161818; 3. संजय शर्मा:- 9983656566

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के परंतुक नियम 8(6) और 9 के साथ पटित वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी अधिनियम) 2002 के तहत विवेक के लिए सार्वजनिक सूचना। उज्जीवन के अधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहरस्ताधरत स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संपत्ति का कच्चा से लिया है। विशेष रूप से कर्जदार और बड़े पैमाने पर जनता को सूचित किया जाता है कि बैंक की बकाया राशि की वसूली के लिए नीचे दिए गए खाते में बंधक संपत्ति को सार्वजनिक नीलामी “जैसा है जहां है” और “जैसा है यही है” के आधार पर नीचे निर्धारित तिथि पर आयोजित की जाएगी।

क्र. सं.	ऋण खाता संख्या	कर्जदार/सह-कर्जदार/उपकर्ता के नाम	13-2 मांग सूचना की तिथि तथा तिथि तक मांग राशि	कच्चे की तिथि	वर्तमान बकाया शेष	सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय	आरक्षित मूल्य रुपये में	जमा धरोहर राशि (ज.ध.रा. रु. में (आरक्षित मूल्य का 10%)	ई-नीलामी की तिथि एवं समय	संविदा जमा करने की अंतिम तिथि	ज.ध.रा. जमा करने हेतु खाता विवरण ईएमडी उज्जीवन
1.	22887970 0000060 तथा 22887610 0000037	1. बन्नी लाल गदरी पुत्र मांगू गदरी 2. राम लाल गदरी पुत्र मांगू गदरी 3. चंदू देवी पत्नी राम लाल गदरी	19-01-2022 रु. 10,14,199/-	18.07.2025	रु. 7,01,364.10/- (खाता सं. 228876100000037 के लिए) तथा रु. 6,87,055.08/- (खाता सं. 228879700000060 के लिए) (23-07-2025 तक)	1-सित.-2025 02:00 बजे अप. पूर्व अनुमति लेकर	रु. 14,74,00/- 0/-	रु. 1,47,400/-	16-सित.-2025 को 11:00 बजे पूर्वा. से 12:00 बजे अप.	15-सित.-2025 को 04:00 बजे अप. तक	स्मॉल फाइनेंस बैंक के पक्ष में आहरित हिमांड ड